

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

1 अगस्त से DBS Bank India के ग्राहकों पर नया नियम लागू: ₹10,000 से कम बैलेसं पर लगेगा 6% जुर्माना।

Publisher

Published on 26 Jun 2025



DBS बैंक सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम ₹10,000 AMB नहीं रखने पर लगेगा 6% का पेनाल्टी चार्ज, 1 अगस्त 2025 से होगा नियम लागू।

अगर आपका बैंक अकाउंट **DBS Bank India** में है, तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। बैंक ने अपने सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स के लिए एक नया नियम जारी किया है, जो **1 अगस्त 2025** से प्रभावी होगा। इस नए नियम के तहत, अगर ग्राहक अपने खाते में तय एवरेज मंथली बैलेसं (AMB) नहीं रखते हैं, तो उस पर **6% का जुर्माना** लगाया जाएगा।

क्या है नया नियम ?

DBS Bank India ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि सेविंग्स अकाउंट में **₹10,000 का एवरेज मंथली बैलेसं** बनाए रखना अनिवार्य होगा। यदि कोई ग्राहक इस सीमा से कम बैलेसं मेंटेन करता है, तो **शॉर्टफॉल अमाउंट पर 6% या अधिकतम ₹500 का जुर्माना** देना होगा।

उदाहरण के तौर पर:

अगर खाते में **AMB केवल ₹8,500** है, तो यह **₹10,000 से ₹1,500 कम** है। ऐसे में इस **₹1,500 पर 6%** के हिसाब से **₹90 का जुर्माना** लगेगा।

किस अकाउंट के लिए कितना AMB जरूरी है ?

अकाउंट टाइप

न्यूनतम एवरेज मंथली बैलेसं (AMB)

SB Others Account	₹1,000
Growth One Savings Account	₹5,000
Regular DBS Savings Account	₹10,000
Growth Savings Account	₹10,000
Lakshmi Savings Youth Power Account	₹100
TASC Youth Power Savings Account	₹10,000

सभी तरह के अकाउंट्स के लिए **AMB मे शॉर्टफॉल पर 6% का चार्ज** लागू रहेगा ।

ATM ट्रांजैक्शन पर भी बदलाव

बैंक ने **ATM चार्ज** को लेकर भी एक बड़ा बदलाव किया है ।

1 मई 2025 से नॉन-DBS ATM से फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट (5 बार) के बाद, हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर **₹23 का चार्ज** लगेगा ।

यह बदलाव **RBI की 28 मार्च 2025** की गाइडलाइन के तहत किया गया है, जिसमें **एटीएम शुल्क को ₹21 से बढ़ाकर ₹23** किया गया है ।

ग्राहकों के लिए सलाह

1. सुनिश्चित करें कि खाते में हर महीने **₹10,000** या उससे अधिक का एवरेज बैलेस बना रहे ।
2. मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग के जरिए नियमित रूप से बैलेस चेक करें ।
3. फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट का ध्यान रखें, विशेषकर नॉन-DBS ATM उपयोग करते समय ।

DBS Bank India के इस नए नियम से ग्राहकों को अपने फंड्स की बेहतर मैनेजमेंट करनी होगी । हालांकि यह कदम बैंक की ओर से **फाइनेशियल डिस्प्लिन** को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन ग्राहकों को समय रहते सतर्क रहना होगा ताकि अतिरिक्त जुर्माने से बचा जा सके ।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.